



हम आपके लिए

यहाँ मौजूद हैं।

NYC
HEALTH+
HOSPITALS

देखभाल प्राप्त करना

क्या मेरे डॉक्टर का दफ्तर खुला है?

हाँ। NYC Health + Hospitals के क्लिनिक अब शारीरिक तौर पर मुलाकातों और टेलीफोन या वीडियो के माध्यम से टेली-मुलाकातों के लिए खुले हैं। प्रत्येक चीज़ के लिए शारीरिक तौर पर मुलाकात की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी देखभाल टीम से घर से फोन या वीडियो मुलाकात करने के विकल्प के बारे में बात करें।

क्या मेरे प्रदाता के साथ शारीरिक तौर पर मुलाकात करना सुरक्षित होगा?

हाँ। वर्तमान में आपकी सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं कि हमारे मरीज़ और कर्मचारी सुरक्षित रहें।

- + हमारे दफ्तरों में प्रवेश करते समय सभी मरीज़ों, मुलाकातकर्ताओं और कर्मचारियों के तापमान की जांच की जाएगी
- + मुलाकात से पहले और अपॉइंटमेंट के दिन मरीज़ों की COVID-19 के लक्षणों के लिए जांच की जाएगी
- + सभी मरीज़ों, मुलाकातकर्ताओं और कर्मचारियों के लिए चेहरे को ढकना आवश्यक है

- + कुछ निश्चित स्थानों पर बुजुर्गों और कमज़ोर मरीज़ों के लिए विशेष क्लिनिक घंटे उपलब्ध होंगे
- + सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए जगहों पर स्पष्ट रूप से निशान लगाए जाएंगे
- + जाँच कमरों को बार-बार साफ किया जाएगा, खासकर मरीज़ों द्वारा मुलाकात करने के समय
- + सभी आम जगहों को पूरा दिन साफ और सेनीटाइज़ किया जाएगा
- + प्रत्येक मरीज़ आवश्यकतानुसार एक स्वास्थ्य सहयोगी ला सकता है

क्या मेरे बच्चों के लिए क्लिनिक में आना सुरक्षित है?

हाँ। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आपका बच्चा अपनी किसी भी वेल-चाइल्ड मुलाकात या टीकाकरण को मिस न कर दे। किसी भी बच्चे को उनके लिए आवश्यक देखभाल के बिना नहीं रहना चाहिए।

सुनिश्चित करें कि यदि आपका बच्चा 2 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, तो आप और आपका बच्चा मुलाकात करने के लिए आते समय मास्क पहनें। यदि आपके पास मास्क नहीं है, तो हम आपको एक मास्क देंगे।

मैं एक रद्द हुई अपॉइंटमेंट का समय पुनर्निर्धारित कैसे कर सकता/सकती हूँ?

आप पुनर्निर्धारित करने के लिए 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692) पर कॉल कर सकते हैं। यदि आपने मधुमेह या हाइपरटेंशन जैसी पुरानी बिमारी के लिए एक निवारक जांच या अपॉइंटमेंट मिस कर दी है, तो अपने प्रदाता के साथ एक मुलाकात को पुनर्निर्धारित करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देरी न करें।

मेरे पास डॉक्टर नहीं है, क्या आप नए मरीजों को देख रहे हैं?

हाँ, हम नए मरीजों को ले रहे हैं। यदि आपको डॉक्टर की खोज करनी है, तो अपनी पहली मुलाकात को निर्धारित करने के लिए 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692) पर कॉल करें।

मेरे प्राथमिक चिकित्सक का दफ्तर बंद है। क्या मैं आपके साथ अपॉइंटमेंट निर्धारित कर सकता/सकती हूँ?

हाँ। हम सभी यहाँ न्यू यार्क वासियों की सेवा में जुटे हुए हैं। यदि आप NYC Health + Hospitals में कभी नहीं गए हैं, तो अपनी पहली अपॉइंटमेंट को निर्धारित करने या अपने नज़दीक का केंद्र खोजने के लिए 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692) पर कॉल करें।

देखभाल के लिए भुगतान करना

मुझे खर्च की चिंता है।

खर्च आपके द्वारा डॉक्टर को न मिलने का कारण कभी नहीं होना चाहिए। हमारे पास सभी न्यू यार्क वासियों के लिए कम खर्च और खर्च-मुक्त हेल्थ केयर कवरेज विकल्प उपलब्ध हैं।

मैंने अपने बीमा कवरेज को गंवा दिया है।

हम इसमें सहायता कर सकते हैं। हमारे वित्तीय सलाहकार आपके और आपके परिवार के लिए उचित बीमा योजना खोजने में आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। 1-646-694-3131 पर आज ही किसी से बात करने के लिए कॉल करें।

यदि आप बीमा के लिए योग्य नहीं हैं या इसे वहन नहीं कर सकते हैं, तो NYC केयर आपकी सेवा में उपलब्ध है। 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273) पर कॉल करके अधिक जानें।

अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें

1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692)



संपर्क में रहें। हमें फॉलो करें।

nychealthandhospitals.org

Hindi 06/20

COVID-19

मुझे लगता है कि मुझे COVID-19 है, क्या मुझे अपॉइंटमेंट को निर्धारित करना चाहिए?

यदि आप COVID-19 के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, तो MyChart के माध्यम से या टेलीहेल्थ मुलाकात का समय निर्धारित करके अपने प्रदाता से संपर्क करें।

आपका डॉक्टर आपको घर पर सुरक्षित रूप से अलग होने के लिए कह सकता है, अपने लक्षणों के आधार पर ExpressCare पर या आपातकालीन कक्ष में जाएँ। यदि आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप एक मुफ्त होटल कमरे के लिए पात्र हो सकते हैं।

सभी न्यू यार्क वासियों को एक COVID-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाना चाहिए, भले ही उनमें लक्षण हों या न हों या वे जोखिम में हों या न हों। जाँच तेज़, आसान और मुफ्त है। अपन नज़दीक एक जाँच केंद्र खोजने के लिए 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692) पर कॉल करें।

यदि मुझे COVID-19 लक्षणों का अनुभव हो रहा है या मेरा तापमान 100.4 से ऊपर है, तो क्या मुझे अपनी मुलाकात पर जाना चाहिए?

यदि आप COVID-19 लक्षण अनुभव कर रहे हैं, तो अपनी मुलाकात के विकल्पों पर चर्चा करने के लिए 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692) पर कॉल करें।

मेरी COVID-19 जांच का परिणाम सकारात्मक था, क्या मुझे अपनी मुलाकात पर जाना चाहिए?

यदि आपको COVID-19 है तो आपको कम से कम 10 दिनों के लिए सुरक्षित रूप से अलग होना चाहिए, जिसमें पिछले 3 दिनों में बिना दवाई जैसे कि एसिटामिनोफेन (Tylenol) या इबुप्रोफेन (Motrin, Advil) के बुखार न हुआ हो। यदि आपके पास सुरक्षित रूप से अलग होने के लिए जगह नहीं है तो आप एक अस्थायी होटल कमरे के लिए पात्र हो सकते हैं।

यदि आप अपने COVID-19 संक्रमण से बाहर आ चुके हैं, तो आप सुरक्षित रूप से अपने क्लिनिक में जा सकते हैं।

भरपूर सेहत के साथ जियें

**NYC
HEALTH+
HOSPITALS**